

COMSYN/BSE/2021-22

Date: 15<sup>th</sup> November, 2021

Online Filing at: [www.listing.bseindia.com](http://www.listing.bseindia.com)

To,  
The General Manager,  
DCS-CRD  
BSE Limited  
PhirozeJeejeebhoy Towers  
Dalal Street Mumbai- 400001(MH)

**BSE Scrip ID: COMSYN BSE Scrip Code: 539986**

**Sub: Submission of Press Clipping Related to extract of Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter/Half Year ended on 30<sup>th</sup> September 2021.**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A(A) and in compliance of Regulation 47(1)(a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 regarding extract of Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter/Half Year ended on 30<sup>th</sup> September, 2021 which was approved in 9/2021-22 Meeting of the Board of Directors held on Saturday, 13<sup>th</sup> November, 2021 at 04.30 P.M. at the Registered Office of the Company.

We herewith enclose the newspaper advertisement published on 14.11.2021 in Free Press Journal English edition and Chotha Sansar Hindi edition.

You are requested to please take on record our above said information for your reference and record.

Thanking you  
Yours Faithfully,  
For, **COMMERCIAL SYN BAGS LTD.**



**SANDEEP PATEL**  
**COMPANY SECRETARY &**  
**COMPLIANCE OFFICER**  
Encl. a/a



## Commercial Syn Bags Limited

CIN : L25202MP1984PLC002669

Registered Office : Commercial House, 3-4, Jaora Compound, M.Y.H. Road, INDORE - 452 001, M.P. INDIA

Ph. +91-731-2704007, 4279525 Fax : +91-731-2704130 E-mail : [mails@comsyn.com](mailto:mails@comsyn.com), Visit at : [www.comsyn.com](http://www.comsyn.com)



# North Korea sends delegation to China for emergency supplies

BEIJING: North Korea's unofficial delegation visited China's Dandong a few days back for emergency supplies as the newly reopened border between the two countries was closed due to a spike in coronavirus cases, a media report said. Rail trade had resumed on November 1, with trains travelling from Dandong, China, over the Yalu River to Sinuiju, North Korea. But eight days later, the link was closed again due to a lockdown in China's Dandong from a new spike in coronavirus cases, reported Radio Free Asia (RFA) citing sources.



# Climate talks resume, cautious coal phaseout still on table



Britain's President for COP26 Alok Sharma (R) prepares to address an 'informal stocktaking plenary' during the COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow on Saturday.

AGENCIES  
Glasgow

Negotiators at this year's UN climate talks were poring over fresh proposals aimed at sealing a deal that could credibly be said to boost the world's efforts to tackle global warming.

British officials chairing the talks in Glasgow, Scotland, released new draft agreements early Saturday after shuttle diplomacy continued past the official Friday evening deadline. US climate envoy John Kerry and his Chinese counterpart Xie Zhenhua both indicated cautious optimism late Friday that talks were moving forward.

A proposal for the overarching decision retains contentious language calling on countries to accelerate "efforts towards the phaseout of unabated coal power and inefficient fossil fuel subsidies."

But in a new addition, the text says nations will recognise "the need for support towards a just transition" - a reference to calls from those working in the fossil fuel industry for financial support as they wind down jobs and businesses.

Alok Sharma, the British official chairing the talks, said he hoped countries would clinch an ambitious agreement in Glasgow.

"I hope the colleagues will rise to the occasion," Sharma told The Associated Press as he walked into the conference venue.

Some campaign groups said the current proposals were not strong enough.

"Here in Glasgow, the world's poorest countries are in danger of being lost from view, but the next few hours

can and must change the course we are on," said Tracy Carty of Oxfam. "What's on the table is still not good enough."

In another proposal, countries are "encouraged" to submit new targets for emissions reduction for 2035 by 2025, and for 2040 by 2030, establishing a five-year cycle. Previously, developing countries were expected to do so only every 10 years.

The proposed agreement states that in order to achieve the 2015 Paris accord's ambitious goal of capping global warming at 1.5 degrees Celsius (2.7 Fahrenheit) by the end of the century compared with pre-industrial times, countries will need to make "rapid, deep and sustained reductions in global greenhouse gas emissions, including reducing global carbon dioxide emissions by 45 per cent by 2030 relative to the 2010 level and to net zero around mid-century, as well as deep reductions in other greenhouse gases."

Scientists say the world is not on track to meet that goal yet, but various pledges made before and during the two-week talks, which are now in overtime, have brought them closer.

The latest draft agreement expresses "alarm and utmost concern that human activities have caused around 1.1C (2F) of global warming to date and that impacts are already being felt in every region."

Divisions remained on the issue of financial support sought by poor countries for the disastrous impacts of climate change they will increasingly suffer in future - the United States continued to have deep reservations.

can and must change the course we are on," said Tracy Carty of Oxfam. "What's on the table is still not good enough."

In another proposal, countries are "encouraged" to submit new targets for emissions reduction for 2035 by 2025, and for 2040 by 2030, establishing a five-year cycle. Previously, developing countries were expected to do so only every 10 years.

The proposed agreement states that in order to achieve the 2015 Paris accord's ambitious goal of capping global warming at 1.5 degrees Celsius (2.7 Fahrenheit) by the end of the century compared with pre-industrial times, countries will need to make "rapid, deep and sustained reductions in global greenhouse gas emissions, including reducing global carbon dioxide emissions by 45 per cent by 2030 relative to the 2010 level and to net zero around mid-century, as well as deep reductions in other greenhouse gases."

Scientists say the world is not on track to meet that goal yet, but various pledges made before and during the two-week talks, which are now in overtime, have brought them closer.

The latest draft agreement expresses "alarm and utmost concern that human activities have caused around 1.1C (2F) of global warming to date and that impacts are already being felt in every region."

Divisions remained on the issue of financial support sought by poor countries for the disastrous impacts of climate change they will increasingly suffer in future - the United States continued to have deep reservations.

can and must change the course we are on," said Tracy Carty of Oxfam. "What's on the table is still not good enough."

In another proposal, countries are "encouraged" to submit new targets for emissions reduction for 2035 by 2025, and for 2040 by 2030, establishing a five-year cycle. Previously, developing countries were expected to do so only every 10 years.

The proposed agreement states that in order to achieve the 2015 Paris accord's ambitious goal of capping global warming at 1.5 degrees Celsius (2.7 Fahrenheit) by the end of the century compared with pre-industrial times, countries will need to make "rapid, deep and sustained reductions in global greenhouse gas emissions, including reducing global carbon dioxide emissions by 45 per cent by 2030 relative to the 2010 level and to net zero around mid-century, as well as deep reductions in other greenhouse gases."

Scientists say the world is not on track to meet that goal yet, but various pledges made before and during the two-week talks, which are now in overtime, have brought them closer.

The latest draft agreement expresses "alarm and utmost concern that human activities have caused around 1.1C (2F) of global warming to date and that impacts are already being felt in every region."

Divisions remained on the issue of financial support sought by poor countries for the disastrous impacts of climate change they will increasingly suffer in future - the United States continued to have deep reservations.

can and must change the course we are on," said Tracy Carty of Oxfam. "What's on the table is still not good enough."

In another proposal, countries are "encouraged" to submit new targets for emissions reduction for 2035 by 2025, and for 2040 by 2030, establishing a five-year cycle. Previously, developing countries were expected to do so only every 10 years.

The proposed agreement states that in order to achieve the 2015 Paris accord's ambitious goal of capping global warming at 1.5 degrees Celsius (2.7 Fahrenheit) by the end of the century compared with pre-industrial times, countries will need to make "rapid, deep and sustained reductions in global greenhouse gas emissions, including reducing global carbon dioxide emissions by 45 per cent by 2030 relative to the 2010 level and to net zero around mid-century, as well as deep reductions in other greenhouse gases."

Scientists say the world is not on track to meet that goal yet, but various pledges made before and during the two-week talks, which are now in overtime, have brought them closer.

The latest draft agreement expresses "alarm and utmost concern that human activities have caused around 1.1C (2F) of global warming to date and that impacts are already being felt in every region."

Divisions remained on the issue of financial support sought by poor countries for the disastrous impacts of climate change they will increasingly suffer in future - the United States continued to have deep reservations.

can and must change the course we are on," said Tracy Carty of Oxfam. "What's on the table is still not good enough."

In another proposal, countries are "encouraged" to submit new targets for emissions reduction for 2035 by 2025, and for 2040 by 2030, establishing a five-year cycle. Previously, developing countries were expected to do so only every 10 years.

The proposed agreement states that in order to achieve the 2015 Paris accord's ambitious goal of capping global warming at 1.5 degrees Celsius (2.7 Fahrenheit) by the end of the century compared with pre-industrial times, countries will need to make "rapid, deep and sustained reductions in global greenhouse gas emissions, including reducing global carbon dioxide emissions by 45 per cent by 2030 relative to the 2010 level and to net zero around mid-century, as well as deep reductions in other greenhouse gases."

Scientists say the world is not on track to meet that goal yet, but various pledges made before and during the two-week talks, which are now in overtime, have brought them closer.

The latest draft agreement expresses "alarm and utmost concern that human activities have caused around 1.1C (2F) of global warming to date and that impacts are already being felt in every region."

Divisions remained on the issue of financial support sought by poor countries for the disastrous impacts of climate change they will increasingly suffer in future - the United States continued to have deep reservations.

can and must change the course we are on," said Tracy Carty of Oxfam. "What's on the table is still not good enough."

In another proposal, countries are "encouraged" to submit new targets for emissions reduction for 2035 by 2025, and for 2040 by 2030, establishing a five-year cycle. Previously, developing countries were expected to do so only every 10 years.

The proposed agreement states that in order to achieve the 2015 Paris accord's ambitious goal of capping global warming at 1.5 degrees Celsius (2.7 Fahrenheit) by the end of the century compared with pre-industrial times, countries will need to make "rapid, deep and sustained reductions in global greenhouse gas emissions, including reducing global carbon dioxide emissions by 45 per cent by 2030 relative to the 2010 level and to net zero around mid-century, as well as deep reductions in other greenhouse gases."

Scientists say the world is not on track to meet that goal yet, but various pledges made before and during the two-week talks, which are now in overtime, have brought them closer.

The latest draft agreement expresses "alarm and utmost concern that human activities have caused around 1.1C (2F) of global warming to date and that impacts are already being felt in every region."

Divisions remained on the issue of financial support sought by poor countries for the disastrous impacts of climate change they will increasingly suffer in future - the United States continued to have deep reservations.

# Eight big cats tested positive for Covid in US



AGENCIES / Washington

Days after a pet dog in the UK tested positive for Covid, now eight big cats in a zoo in the United States detected positive for coronavirus.

Citing St. Louis Post-Dispatch, The Hill reported that the infected cats include two African lions, two snow leopards, an Amur tiger, a puma and two jaguars. These animals had mild symptoms, although some had a cough and nasal discharge.

Apart from them, none of the other 12,000 animals in the St. Louis Zoo have tested positive, the local newspaper reported. Staff have not traced the source of the infection among the cats.

The zoo has been vaccinating its animals with an animal-specific vaccine for more than a month against the disease that has wreaked havoc on the global human population, The Hill reported.

In September, six big cats tested positive for the coronavirus at the Smithsonian National Zoo.

Days after a pet dog in the UK tested positive for Covid, now eight big cats in a zoo in the United States detected positive for coronavirus.

Citing St. Louis Post-Dispatch, The Hill reported that the infected cats include two African lions, two snow leopards, an Amur tiger, a puma and two jaguars. These animals had mild symptoms, although some had a cough and nasal discharge.

Apart from them, none of the other 12,000 animals in the St. Louis Zoo have tested positive, the local newspaper reported. Staff have not traced the source of the infection among the cats.

The zoo has been vaccinating its animals with an animal-specific vaccine for more than a month against the disease that has wreaked havoc on the global human population, The Hill reported.

In September, six big cats tested positive for the coronavirus at the Smithsonian National Zoo.

Days after a pet dog in the UK tested positive for Covid, now eight big cats in a zoo in the United States detected positive for coronavirus.

Citing St. Louis Post-Dispatch, The Hill reported that the infected cats include two African lions, two snow leopards, an Amur tiger, a puma and two jaguars. These animals had mild symptoms, although some had a cough and nasal discharge.

Apart from them, none of the other 12,000 animals in the St. Louis Zoo have tested positive, the local newspaper reported. Staff have not traced the source of the infection among the cats.

The zoo has been vaccinating its animals with an animal-specific vaccine for more than a month against the disease that has wreaked havoc on the global human population, The Hill reported.

In September, six big cats tested positive for the coronavirus at the Smithsonian National Zoo.

RAAJ MEDISAFE INDIA LIMITED					
CIN : L33112MP1985PLC003039					
Regd. Off.: 108, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Dist. - Dhar (M.P.)					
Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Half Year ended	
		30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
1	Total Income from operations (Net)	924.54	238.38	1,812.24	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	137.62	(33.22)	260.11	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Item)	137.12	(33.22)	249.07	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Item)	137.12	(33.22)	249.07	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	137.12	(33.22)	249.07	
6	Equity Share Capital	1,000.20	1,000.20	1,000.20	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year			(983.00)	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for Continuing and discontinued Operations)				
	a) Basic (Rs.)	1.25	(0.30)	2.25	
	b) Diluted (Rs.)	1.25	(0.30)	2.25	

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results are available on the Stock Exchange website www.sebiindia.com and the Company's website www.raajmedisafe.com. 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. 3. The Unaudited Standalone Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved at the meeting of Board of Directors of company held on 12th Nov 2021. 4. Exceptional and/or Extraordinary items, if any, adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules. 5. Current Quarter figures are prepared after giving effect as per scheme of amalgamation. Figures have been regrouped or re-arranged wherever necessary and figures of Half Year Ended 30.09.2020 are not comparable. 6. The Sales of Aluminium Segment is not falling under provisions of Segment reporting, therefore segment reporting is not applicable for the Half year ended Sep 30, 2021. 7. As per Ind AS 33, Earnings Per Share, "Ordinary shares issued as part of the consideration transferred in a business combination are included in the weighted average number of shares from the appointed date of merger. This is because the Raaj Medisafe India Limited (Transferor Company) incorporates into its statement of profit and loss of the Transferor company (Palmex Polymers India Private Limited) profits and losses from that date." As per approved scheme of amalgamation is 01/04/2020. Further, As per Ind AS 33, the retrospective effect of change or adjustment in number of ordinary shares is adjusted for all periods presented, the effect of change in number of ordinary shares is given also in Basic Earnings per Share and Diluted Earnings per Share. For & On behalf of Board of Directors For Raaj Medisafe India Limited Sd/- Anil Bhanu Chatterjee Chairman DIN: 049320017

Place : Ujjain Date : 12.11.2021

## कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक यांत्रिकी खण्ड मंदसौर

दूरभाष क्रमांक- 07422-256284, फैक्स 07422-256215  
महोदय कोयला महानिदेशालय के पास मंदसौर E-mail:- eephedmas@mp.nic.in  
NIT NO. 35/2021-22 मंदसौर, दिनांक 08.11.2021

क्रमांक 3300/व.ले.नि./का.च./2021 मंदसौर, दिनांक 08.11.2021  
निम्नलिखित कार्य आमंत्रण सूचना वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर प्रदर्शित की गई है। टेंडर का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रुपयों में)	1 अनंतिम बोली (रुपयों में)	समयावधि (सप्ताह)	निविदा क्रय की अंतिम तिथि
2020_PHEID_16711_1	Design and Construction of retrofitting work of water supply schemes under Jal Jeevan Mission at Villages 1 Khanderiya Kochhar 2 Keshabhadi 3 Khatkhath 4 Bollya 5 Risthal 6 Rajakhedi of Sitamau Block Distt. Mandaur based on underground sources including construction of R.C.C. sump well, R.C.C. over head tank, providing and installation of pumps at underground sources and sump, providing, laying & jointing of pumpmain and distribution pipe lines, household tap connections and electric power connections including cost of all material & labour alongwith 90 days successful trial run of entire schemes as per detailed scope of work, as per BOQ.	2,51,16,106.00	1) 25116100 2) प्रथम अंश	180 दिन	23.11.2021 17.30 बजे

उक्त कार्य को निविदा क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग एकाउंट के माध्यम से भुगतान करने पर ऑनलाईन उक्त वेबसाइट पर क्रय की जा सकती है। निविदा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।  
नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संशोधन पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

कार्यालय यंत्री  
लोक स्वा.यां. खण्ड मंदसौर  
मोबाइल नं. 07422232190

G-19098

## CHOKSI LABORATORIES LIMITED

CIN : L85195MP1993PLC007471  
Regd. Off.: Survey No. 9/1, Near Tulsiana Industrial Park, Gram Kumed, Indore-452010 (MP.)  
Website: [www.choksilab.com](http://www.choksilab.com) E-mail: [compliance@choksilab.com](mailto:compliance@choksilab.com)

### Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2021

(₹ in Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended on		Half Year Ended on		Year Ended	
		September 30, 2021	June 30, 2021	September 30, 2020	September 30, 2021	September 30, 2020	March 31, 2021
1	Total Income From Operations (Net)	720.85	542.04	741.62	1262.89	1242.75	2617.62
2	Profit / (Loss) from ordinary activities before tax, Exceptional items	-44.87	-183.50	-60.09	-228.37	-138.29	-280.82
3	Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after Exceptional items)	-44.87	-183.50	-60.09	-228.37	-138.29	-280.82
4	Net Profit (+) / Loss (-) from Ordinary Activities after tax	-52.5	-153.56	-37.59	-206.06	-113.94	-260.77
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	-49.17	-150.23	-35.74	-199.40	-110.24	-247.42
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	696.52	696.52	696.52	696.52	696.52	696.52
7	Earning Per Share (EPS) of ₹10/- each (not to be annualised)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	(1) Basic	-0.75	-2.20	-0.54	-2.96	-1.64	-3.74
	(2) Diluted	-0.75	-2.20	-0.54	-2.96	-1.64	-3.74

Notes:  
(1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on the Company website ([www.choksilab.com](http://www.choksilab.com)).  
(2) The above results were reviewed by the Audit Committee and approved at the meeting of the Board of Directors held on 13th November, 2021.  
(3) Figures of Previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to make them comparable with current figures of current period.

By Order of the Board  
For Choksi Laboratories Limited  
Sd/-  
Sunil Chokhal (Managing Director)  
DIN: 00155078

Place : INDORE  
Date : 13th November, 2021

## SIMRAN FARMS LIMITED

CIN : L01222MP1984PLC002627  
Regd. Office: 1-B, Vikas Rekha Complex, Khatiwala Tank, Tower Square, Indore (M.P.) 452001  
Phone: 0731-4255900, Fax: 0731-4255949  
Website: [www.simranfarms.com](http://www.simranfarms.com), Email: [compliance@simranfarms.com](mailto:compliance@simranfarms.com)

### UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2021

Amount in Lakhs (Except Earnings Per Share)

Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED	
	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended	Half Year Ended
	30-Sep-2021	30-Sep-2020	30-Sep-2021	30-Sep-2020
	(Reviewed)	(Reviewed)	(Reviewed)	(Reviewed)
Total income from operations (net)	11248.71	8515.90	11248.71	8515.90
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	369.02	578.73	1271.35	379.08
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	369.02	578.73	1271.35	379.08
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	306.72	315.76	875.88	314.17
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	306.72	315.76	875.88	312.88
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	379.17	379.17	379.17	379.17
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
Basic : (in Rs.)	8.09	8.33	23.10	8.25
Diluted: (in Rs.)	8.09	8.33	23.10	8.25

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Un-Audited Financial Results for quarter & half year ended September 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Half yearly Un-Audited Financial Results are available on the Stock Exchange website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and the Company's website ([www.simranfarms.com](http://www.simranfarms.com)).  
For Simran Farms Ltd.

Place: Indore  
Date: 12-Nov-2021

K. S. Bhatia  
Wholetime Director  
DIN: 00401827

## COMMERCIAL SYN BAGS LIMITED

CIN : L25202MP1984PLC002669  
Registered office: Commercial House, 3-4 Jaora Compound, M.Y.H. Road, Indore-452001 (M.P.)  
Contact No.: 0731-4279525, Email Id: [investors@comsyn.com](mailto:investors@comsyn.com), Website: [www.comsyn.com](http://www.comsyn.com)

### "EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2021"

(Rupees in Lakhs except EPS)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED	
		Quarter Ended	Year to Date	Quarter Ended	Year to Date
		30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
		Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited
1	Total Income from Operations	7651.45	15192.73	5256.56	7590.93
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	473.27	950.82	369.65	473.29
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	473.27	950.82	369.65	473.29
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	435.14	882.06	339.52	427.16
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive income (after tax))	435.14	882.06	339.52	427.16
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/-)	1181.74	1181.74	1181.74	1181.74
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	3.68	7.46	2.87	3.61
	2. Diluted:	3.68	7.46	2.87	3.61

Notes:  
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the company website [www.comsyn.com](http://www.comsyn.com)  
2. The above Audited Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th November, 2021.

For and on behalf of the Board of Directors  
SD/-  
(ANIL CHOUDHARY)  
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR  
DIN : 00017913

Place : Indore (M.P.)  
Dated : 13.11.2021

## AVAILABLE FINANCE LIMITED

CIN : L67120MP1993PLC007481  
Agarwal House, 5 Yeshwant Colony Indore 452003 MP Phone No. 0731-4714000  
Fax: 0731-2531388 Email: [cs@availablefinance.in](mailto:cs@availablefinance.in)

### STANDALONE & CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/Half ended September 30, 2021

(₹. In Lakhs) (except EPS)

Particulars	Standalone		Consolidated	
	Quarter ending	Corresponding 3 months ended in the previous year	Quarter ending	Corresponding 3 months ended in the previous year
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
	(Un-audited)	(Unaudited)	(Un-audited)	(Unaudited)
Total income from operations	19.61	14.15	34.45	55.27
Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	14.32	11.46	24.84	36.59
Net Profit / (Loss) for the period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	14.32	11.46	24.84	36.59
Net Profit / (Loss) for the period (After Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	14.39	11.46	24.91	37.27
Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after Tax))	20.32	15.24	45.26	52.17
Equity Share Capital	1020.37	1020.37	1020.37	1020.37
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	648.07	604.77	648.07	623.16
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.14	0.11	0.24	0.37

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of standalone consolidated un-audited financial results for the Quarter/Half ended September 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.  
2. The full format of the Financial Results (Standalone and consolidated) for the Quarter/Half ended September 30, 2021 are available on the website of the Company at [www.availablefinance.in](http://www.availablefinance.in) and Stock exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

For Available Finance Limited (Rakesh Sahu)  
Whole-Time Director & CFO  
DIN : 08433972

Date: 13/11/2021  
Place: Indore

## Tata Realty and Infrastructure Limited

CIN : U70102MH2007PLC168300  
Regd. Office : "E Block", Voltas Premises, T. B. Kadam Marg, Chinchpokli, Mumbai-400 033  
Tel. 91 22 6661 4444, Fax : 91 22 6661 4452, Website: [www.tatarealty.in](http://www.tatarealty.in)

### Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial



# जिनके नाम पर रखा गया देश के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन हबीबगंज का नाम अंतिम हिंदू साम्राज्ञी थी रानी कमलापति

भोपाल। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति हो गया है। शिवराज सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव में तर्क दिया था कि सोलवर्षी सदी में भोपाल क्षेत्र गोंड शासकों के अधीन था। गोंड राजा सुरत सिंह के बेटे निजाम शाह से रानी कमलापति का विवाह हुआ था। रानी कमलापति ने अपने पूरे जीवनकाल में बहादुरी और वीरता के साथ अक्रमणकारियों का सामना किया था। गौरतलब है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भोपाल से 50 किलोमीटर दूर बने



गिनौरगढ़ की छोटी रियासत वजुद में आई। निजाम साहब गोंड राजा थे। कहा जाता है राजा निजाम शाह यहां के शासक थे। यहीं कि उनकी 7 पत्नियां थीं। इनमें से एक थी रानी कमलापति। वह राजा की सबसे प्रिय

पत्नी थीं। रानी खूबसूरत होने के साथ-साथ बुद्धिमान भी थीं। आज का भोपाल उस समय का एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिस पर निजाम शाह की हुकूमत थी। बताया जाता है कि निजाम शाह को उनके ही भतीजे आलम शाह ने जहर देकर मरवा डाला था। खुद को बचाने के लिए रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ गिनौरगढ़ से भोपाल के रानी कमलापति महल में आ गई थीं। भोपाल आकर रानी ने राजा के मित्र मोहम्मद खान से मदद मांगी। बताया जाता है कि मोहम्मद खान ने 1 लाख रुपये में राजा के कातिल की हत्या करवा दी लेकिन वादे के मुताबिक रानी रुपये नहीं दे पाईं। बदले में उन्होंने

अपनी रियासत का कुछ हिस्सा मोहम्मद खान को दे दिया। बता दें, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा- आदिवासी साम्राज्ञी रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूँ। वे गोंड समुदाय का गौरव हैं। वे अंतिम हिंदू साम्राज्ञी थीं।

गंगा प्रॉडक्ट्स  
बैंगलोर का उत्कृष्ट उत्पाद

## चौरन्गी 250

अगरबत्ती

अब ₹. 20/- में

## मणिपुर हमले पर राहुल गांधी ने बोला हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में असम रायफल्स के काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इस हमले की निंदा करते हुए ट्विटर पर कहा कि एक बार फिर ये साबित हो गया है कि मोदी सरकार देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, 'मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिवारजनों को शोक संवेदनाएं। देश आपके बलिदान को याद रखेगा।'

## इंदौर से भागे कैदी ने जहर पीकर जान दी

इंदौर/बड़वानी। बड़वानी जिला मुख्यालय स्थित केन्द्रीय जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे एक कैदी को उपचार के लिए इंदौर ले जाया गया था, इंदौर अस्पताल से छुट्टी होने के दौरान शनिवार को पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद उसने खरगोन जिले के मंडलेश्वर के समीप ग्राम भोकलाई अपने निवास पहुंचकर कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी।

बड़वानी केन्द्रीय जेल अधीक्षक डीएस अलावा ने बताया कि 47 वर्षीय जामसिंह पुत्र झीना निवासी ग्राम भोकलाई थाना मंडलेश्वर जिला खरगोन, हत्या के मामले में सजा काट रहा था। गत दिनों उसकी जुबान पर छाले होने से उसे उपचार के लिए इंदौर एमवाय अस्पताल भेजा गया था, जहां उसे कैप्सर होना बताया

## युवती की मौत के बाद जमकर बवाल, पथराव और फायरिंग के बाद पुलिसबल तैनात

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले शुक्रवार शाम एक युवती की सड़ित मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। यहां एक युवती की सड़ित हालतों में मौत हो गई। युवती का शव फाली के फेंदे पर लटका मिला। सूचना मिलते ही हंगामा मच गया। वहीं, युवक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि युवती ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवक के साथ एक साल पहले लव मैरिज की थी। मौत के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट और हंगामा हुआ। मामला आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के विल्ली पाड़ा का है। जहां पर एक समुदाय के लड़के ने कुछ साल पहले दूसरे समुदाय की लड़की से शादी कर ली थी। अब लड़की की सड़ित हालत में मौत हो गई। इस मौत के बाद तमाम मानजा नेता मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए लिहाजा पथरावबाजी भी हो गयी।

**COMMERCIAL SYN BAGS LIMITED**  
CIN : L25202MP1984PLC002669  
Registered office: Commercial House, 3-4 Jaora Compound, M.Y.H. Road, Indore-452001 (M.P.)  
Contact No.: 0731-4279525, Email id: investors@comsyn.com, Website: www.comsyn.com

"EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2021"

(Rupees in Lakhs except EPS)

SR. No.	Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED	
		Quarter Ended 30.09.2021 Un-audited	Year to Date 30.09.2021 Un-audited	Quarter Ended 30.09.2021 Un-audited	Year to Date 30.09.2021 Un-audited
1	Total Income from Operations	7651.45	15192.73	5256.56	7590.93
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	473.27	950.82	369.65	473.29
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	473.27	950.82	369.65	473.29
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	435.14	882.06	339.52	427.16
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive Income (after tax))	435.14	882.06	339.52	427.16
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/-)	1181.74	1181.74	1181.74	1181.74
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	3.68	7.46	2.87	3.61
	2. Diluted:	3.68	7.46	2.87	3.61

Notes:  
1 The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the company website [www.comsyn.com](http://www.comsyn.com)  
2 The above Audited Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th November, 2021.

For and on behalf of the Board of Directors  
SD/-  
(ANIL CHOUDHARY)  
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR  
DIN : 00017913

Place : Indore (M.P.)  
Dated : 13.11.2021

## अफगानिस्तान.....

### तालिबान की सरकार को नहीं मिल रही मान्यता

तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद अपनी सरकार गठित कर दी थी। इस सरकार को ज्यादातर देशों की सरकारों ने मान्यता नहीं दी है। इनमें अफगानिस्तान को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देने वाले यूरोपीय देश और अमेरिका शामिल हैं। इसके चलते वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने इस आर्थिक संकट के सूखे के कारण और बढ़ा होने की चेतावनी दी है।

### सैलरी के बिना हेल्थ सेक्टर हो चुका टाप

डब्ल्यूएचओ ने अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गी चेतावनी दी है, जो ज्यादातर हेल्थकेयर वर्कर्स को महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण पूरी तरह टाप हो चुका है। सेंट्रल के जिनेवा स्वास्थ्यदाता के साथ टेलीफोन पर बातचीत में इस बात की वित्त काबुल में मौजूद हर्ड की रपोवर्सर्पलन मार्गेट हेरिस ने जताई।

### दुनिया का.....

## प्रथम पृष्ठ के शेष.....

राज्यों और स्थानीय निकायों को आपातकालीन उपायों को लागू करना चाहिए, जिसमें स्कूलों को बंद करना, निजी कारों पर 'ऑड-ईवन' प्रतिबंध लगाना और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन को रोकना शामिल है।

### यूपी के पांच शहरों का एक्वआई 400 से ज्यादा

बुलंदशहर, हापुड, नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता का स्तर गिरता जा रहा है। आज इन पांच शहरों में एक्वआई 400 से ज्यादा है। बुलंदशहर में एक्वआई का स्तर 444 है। पीएम10 का स्तर 568 और पीएम 2.5 का स्तर 417 है। लखनऊ में हवा की गुणवत्ता खराब है। यहां एक्वआई 187 है, पीएम10 का स्तर 187 और पीएम 2.5 का स्तर 125 है।

### अमरावती.....

अमरावती में शुक्रवार और शनिवार को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 20 एफआईआर दर्ज की हैं, वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि अमरावती को छोड़कर पूरे राज्य में शांति है। हम स्थानीय लोगों से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें। समाज में दरार पैदा करने वालों पर कार्रवाई होगी। अगर कोई गड़काएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

### अमरावती में कल से आज तक क्या हुआ

त्रिपुरा में कथित साम्प्रदायिक टकराव के विरोध में महाराष्ट्र के कई शहरों में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था। इस दौरान नांदेड, मालेगांव और अमरावती में हिंसा देखने को

मिली थी। शुक्रवार को हुई हिंसा और पथराव के विरोध में दूसरे पक्ष ने शनिवार को शहर में बंद बुलाया था। अमरावती में शुक्रवार को पुराने कॉलेज मार्केट चौक में कुछ दुकानों को बंद करने की कोशिश के दौरान पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता के किराना प्रतिष्ठान पर पथराव किया गया।

98 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित

**श्री गुजराती समाज, इन्दौर**  
1, नसिया रोड, इन्दौर, फोन : 0731-2706468, 2703447  
e-mail : sgsindore@hotmail.com, web: www.shrigujaratisamajindore.org

<b>नरेन्द्रभाई जी. पटेल</b> अध्यक्ष	<b>पंकजभाई संघवी</b> अध्यक्ष-बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एवं मन्डल समिती
<b>गोविंदभाई पटेल</b> उपाध्यक्ष	<b>प्रदीपभाई शाह</b> मानद कोषाध्यक्ष
<b>दीपकभाई मोदी</b> मानद हिसाबनीस	<b>दीपकभाई जे. सोनी</b> मानद सह हिसाबनीस
<b>अतुलभाई शेट</b> अध्यक्ष-शिक्षण समिति (कॉलेज)	<b>सुरेशचन्द्र पटेल</b> अध्यक्ष-शिक्षण समिति (स्कूल)
<b>डॉ. जयेशभाई शाह</b> मानद सहमंत्री	<b>नरेन्द्रभाई वी. पटेल</b> मानद सहमंत्री
	<b>मनोजभाई परीख</b> मंत्री-बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

शिक्षा ही बच्चों को मजबूत व बेहतर बनाती है। सभी बच्चों को श्री गुजराती समाज व शिक्षकों की ओर से बाल-दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

**SIMRAN FARMS LIMITED**  
CIN: L01222MP1984PLC002627  
Regd. Office: 1-B, Vikas Rekha Complex, Khatiwala Tank, Tower Square, Indore (M.P) 452001  
Phone: 0731-4255900, Fax: 0731-4255949  
Website: www.simranfarms.com, Email: compliance@simranfarms.com

**UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2021**

Amount in Lakhs (Except Earnings Per Share)

Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED	
	Quarter Ended 30-Sep-2021 (Reviewed)	Half Year Ended 30-Sep-2021 (Reviewed)	Quarter Ended 30-Sep-2021 (Reviewed)	Half Year Ended 30-Sep-2021 (Reviewed)
Total income from operations (net)	11248.71	8515.90	20278.46	11248.71
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	369.02	578.73	1271.35	379.08
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	369.02	578.73	1271.35	379.08
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	306.72	315.76	875.88	314.17
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	306.72	315.76	875.88	312.88
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	379.17	379.17	379.17	379.17
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
Basic : (in Rs.)	8.09	8.33	23.10	8.25
Diluted: (in Rs.)	8.09	8.33	23.10	8.25

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Un-Audited Financial Results for quarter & half year ended September 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Half yearly Un-Audited Financial Results are available on the Stock Exchange website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and the Company's website ([www.simranfarms.com](http://www.simranfarms.com))

For Simran Farms Ltd.  
K. S. Bhatia  
Wholesale Director  
DIN: 00401827

HERBAL **कोरा** HAIR COLORING SHAMPOO

NATURAL LOOKING COLOR

10 NATURAL BLACK

10 MINUTES

SCIENTIFICALLY PROVEN COLORS ONLY HAIR

MRP ₹ 35/- (Inclusive of all taxes)

लगाने में बेहद आसान मिनटों में दे बेहतरीन परिणाम

छोटे बालों के लिए 10ml. का छोटा पैक भी उपलब्ध

कोरा पैक के साथ दिए गए ग्लव्स पहनें।  
पैक काटें। एक बार में पूरा शैम्पू हथेली पर लें।  
जड़ से सिरे तक समान रूप से लगाएं।  
सिर्फ 10 मिनट के लिए रहने दें।  
फिर पानी से अच्छी तरह धो लीजिए।

कोरा की विशेषताएं :  
• समय की बचत • कलर टच-अप की झंझट से छुटकारा  
• स्किन पर दाग नहीं लगता • स्वयं आसानी से उपयोग करें

AVAILABLE IN 3 SHADES  
NATURAL BLACK DARKEST BROWN BURGUNDY

30ml.

HELPLINE: 095 166 166 88 | BUY ONLINE : [www.ratanayurvedic.com](http://www.ratanayurvedic.com)